

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 11 दिसंबर 2022

प्रश्न -1

भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया?

- A) 09 दिसंबर
- B) 07 दिसंबर
- C) 05 दिसंबर
- D) 02 दिसंबर

सही उत्तर: D

राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस हर साल 02 दिसंबर को मनाया जाता है। यह 2 और 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी में मारे गए लोगों की याद में मनाया है।

प्रश्न-2

दिसंबर 2022 के लिए, निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की अध्यक्षता संभाली है?

- A) संयुक्त अरब अमीरात
- B) मेक्सिको
- C) आयरलैंड
- D) भारत

सही उत्तर: D

भारत ने 1 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की अध्यक्षता ग्रहण की। इसी दिन देश ने G20 की अध्यक्षता भी ग्रहण की।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 11 दिसंबर 2022

प्रश्न-3

निम्नलिखित में से किसे पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है?

- A) एस.एम. झा
- B) एस. बालचंद्रन
- C) एम. परमासिवम
- D) बी.के. मिश्रा

सही उत्तर: C

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) ने एम. परमासिवम को सरकारी स्वामित्व वाले पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है।

प्रश्न-4

भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया?

- A) दमन और दीव
- B) जम्मू और कश्मीर
- C) लद्दाख
- D) पुडुचेरी

सही उत्तर: B

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर की चेनानी तहसील के मनतलाई गांव में भारत का सबसे बड़ा योग केंद्र बनाया गया है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने इसके लिए 19,782 करोड़ मंजूर किए हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र को आधुनिक रूप दिया गया है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 11 दिसंबर 2022

प्रश्न-5

विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया?

- A) 02 दिसंबर
- B) 05 दिसंबर
- C) 07 दिसंबर
- D) 10 दिसंबर

सही उत्तर: A

विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2001 में शुरू हुआ, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कंप्यूटर साक्षरता को दुनिया के सबसे दूरस्थ कोनों तक ले जाकर डिजिटल डिवाइड को संबोधित करना चाहता है।

प्रश्न-6

निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति पारित की है?

- A) मेघालय
- B) असम
- C) सिक्किम
- D) त्रिपुरा

सही उत्तर: A

मेघालय में, राज्य मंत्रिमंडल ने कैबिनेट बैठक के बाद अपनी पहली मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति पारित की है। इसके साथ , मेघालय ऐसी नीति रखने वाला पूर्वोत्तर का पहला और भारत का तीसरा राज्य बन गया है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 11 दिसंबर 2022

प्रश्न-7

निम्नलिखित में से किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव आयोजित किया गया था?

- A) आंध्र प्रदेश
- B) गोवा
- C) महाराष्ट्र
- D) तमिलनाडु

सही उत्तर: B

विदेश मंत्रालय (MEA) ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) और गोवा सरकार के साथ साझेदारी में 3-6 दिसंबर 2022 तक गोवा में अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन किया। यह महोत्सव भारत को लुसोफोन की दुनिया से जोड़ने का प्रयास करता है।

प्रश्न-8

निम्नलिखित में से किसे वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एडवरटाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया (AAAI) के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था?

- A) आर. वेंकटरमणि
- B) प्रशांत कुमार
- C) मुकुल रोहतगी
- D) अभिषेक सिंघवी

सही उत्तर: B

ग्रुपएम मीडिया (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के दक्षिण एशिया के CEO प्रशांत कुमार को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एडवरटाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया (AAAI) का अध्यक्ष चुना गया है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 11 दिसंबर 2022

प्रश्न-9

निम्नलिखित में से किस देश की मीना सू चोई को मिस अर्थ 2022 का ताज पहनाया गया?

- A) चीन
- B) जापान
- C) दक्षिण कोरिया
- D) वियतनाम

सही उत्तर: C

मीना सू चोई को 29 नवंबर को कोव मनीला ओकाडा होटल पैराक सिटी में मिस अर्थ 2022 का ताज पहनाया गया। दक्षिण कोरिया की मीना सू चोई ने प्रतिष्ठित ताज जीतने वाली पहली दक्षिण कोरियाई प्रतिनिधि बनकर इतिहास रच दिया।

प्रश्न-10

अंतरराष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवसकब मनाया गया?

- A) 04 दिसंबर
- B) 03 दिसंबर
- C) 02 दिसंबर
- D) 01 दिसंबर

सही उत्तर: C

अंतरराष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर को दासता के समकालीन रूपों के उन्मूलन के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है , जिसमें व्यक्तियों की तस्करी, यौन शोषण, बाल श्रम, जबरन विवाह आदि शामिल हैं।